

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

प्रेस विज्ञपति

खेल कूद प्रचार समिति, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा "ग्रीष्मकालीन शिविर" का आयोजन ।

नई दिल्ली, 27 जून, 2018 - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के खेल कूद प्रचार समिति ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए तीन दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किया गया । शिविर का उदघाटन श्री आई. एन. मूर्ति, सदस्य(प्रचालन) द्वारा किया गया इस अवसर पर श्री टी. प्रेमनाथ, कार्यपालक निदेशक (प्रशासन), अध्यक्ष, खेल कूद प्रचार समिति एवं श्री ए.के. गोस्वामी, सचिव, खेल कूद प्रचार समिति, भा.वि.प्रा. भी उपस्थित थे ।

शिविर के दौरान 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए तीन अलग-अलग आयु वर्ग के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने अपने कलात्मक कौशल का परिचय दिया गया । शिविर में प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ-साथ बच्चों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और उन्हें घर के अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की जानकारी दी गई । मलेरिया, टाइफाइड और चिकनगुनिया जैसे विषाणु जनित रोगों के कारणों और लक्षणों संबंधी स्वास्थ्य सुझाव भी दिये गए व यह भी बताया गया कि सीलन, एसी और रेफिजरेटर, गर्मी उत्पन्न करने वाले पेंट सहित विभिन्न आंतरिक प्रदूषकों से जनित इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है ।

शिविर में विभिन्न आयु वर्गों के लिए दौड़ आयोजित की गई और भारतीय योग संस्थान के सहयोग से एक योग सत्र का आयोजन किया गया । इसके बाद एक फुटबाल टूर्नामेंट आयोजित किया गया ।

शिविर का समापन श्री अनुज अग्रवाल, सदस्य(मानव संसाधन) द्वारा किया गया अपने समापन भाषण में उन्होंने भविष्य में बच्चों के लिए ऐसे और शिविर का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया । इस अवसर पर उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए । कार्यक्रम का संचालन खेल कूद प्रचार समिति के सदस्य श्री विजय मेहर द्वारा किया गया ।

द्वारा जारी- निगमित संचार निदेशालय

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

उप महाप्रबंधक(निगमित संचार)-011 24622787

प्रेस विज्ञप्ति न. 23/2018-19



श्री. टी. प्रेमनाथ, कार्यपालक निदेशक (प्रशासन) और अध्यक्ष, स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के साथ फुटबॉल टीम के सदस्य



श्री अनुज अग्रवाल, सदस्य (मा. स.) विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए

